



(एक महारत्न कंपनी)

मनीष कुमार अग्रवाल
कंपनी सचिव
MANISH KUMAR AGARWAL
Company Secretary

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
POWER FINANCE CORPORATION LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम)
(आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित)
(आई.एस.ओ. 45001:2018 प्रमाणित)

(A Govt. of India Undertaking)
(ISO 9001:2015 Certified)
(ISO 45001:2018 Certified)

No: 1:05:138:FC'S
Dated: 16.01.2025

National Stock Exchange of India Limited Listing Department, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) MUMBAI – 400 051.	BSE Limited, Department of Corporate Services, Floor – 25, P.J Towers, Dalal Street, MUMBAI – 400 001.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051	बीएसई लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001

Sub: Transfer of Gadag II and Koppal II Transmission Limited & Bijapur Rez Transmission Limited (wholly owned subsidiaries of PFC Consulting Limited) (a wholly owned subsidiary of Power Finance Corporation Limited).

Madam/Sir,

This is to inform that the following two wholly owned subsidiaries of PFC Consulting Limited (wholly owned subsidiary of Power Finance Corporation Limited) have been transferred to the successful bidder on 16.01.2025.

- Gadag II and Koppal II Transmission Limited** established for the development of “System strengthening at Koppal-II and Gadag-II for integration of RE generation projects”, has been transferred to Power Grid Corporation of India Limited.
- Bijapur Rez Transmission Limited** established for the development of “Transmission Scheme for integration of Bijapur REZ in Karnataka”, has been transferred to G R Infraprojects Limited.

The details relating to said transaction are as under:-

Sl. No.	Particulars	Details	
		Gadag II and Koppal II Transmission Limited	Bijapur Rez Transmission Limited
1.	The amount and percentage of the turnover or revenue or income and net worth contributed by such unit or division of the listed entity during the last financial year.	Negligible	
2.	Date of which the agreement for sale has been entered into.	The process for sale and transfer of the said SPV's to the successful bidder(s) is completed on 16.01.2025.	
3.	The expected date of completion of sale/disposal.		


Manish

4.	Consideration received from such sale/disposal.	Rs. 13,23,79,272/- as per the Share Purchase Agreement.	Rs. 11,40,00,588/- as per the Share Purchase Agreement.
5.	Brief details of buyer and whether the buyers belong to the promoter/ promoter group/ group companies. If yes, details thereof.	Name of the successful bidder: Power Grid Corporation of India Limited G R Infraprojects Limited	
		It is pertinent to mention that the successful Bidders mentioned above, does not belong to Promoter and Promoter group.	
6.	Whether the transaction would fall within related party transactions? If yes, whether the same is done at "arm's length".	The transaction does not fall within the purview of related party transaction.	
7.	Whether the transaction is in the nature of Slump Sale.	The proposal for sale and transfer of the wholly-owned subsidiaries of PFC Consulting Limited, to the successful bidders as per details given in Point no. 5 above, is not in the nature of slump sale. Further, the consideration for sale & transfer of SPVs is determined in accordance with the Guidelines issued, from time to time, by the Ministry of Power, Government of India.	

This is for your kind information and dissemination.

Thanking You.

Yours faithfully,
For Power Finance Corporation Limited



(Manish Kumar Agarwal)
Company Secretary & Compliance Officer
mk_agarwal@pfcindia.com

